

प्रेस विज्ञप्ति थाना बड़हलगंज दिनांक 14-10-2020

शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार व 8 किलोग्राम गांजा बरामद

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर, क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बड़हलगंज गोरखपुर मय हमराह उ0नि0 किशोरी लाल चौधरी, उ0नि0 राजकपूर, का0 निलेश कन्नौजिया, का0 अनिल कुमार यादव, का0 सत्येन्द्र भास्कर द्वारा मुखविर की सूचना पर शातिर गांजा तस्कर दीपू हरिजन पुत्र विशुन प्रसाद निवासी हेड कैनाल रौधा भगवानपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को आज दिनांक 14.10.2020 समय 05.20 बजे दोहरीघाट से गोरखपुर की तरफ आते हुए दोहरीघाट पुल मेन रोड (मुक्तिपथ) से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 8 कि0ग्रा0 गांजा बरामद किया गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1170/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

दीपू हरिजन पुत्र विशुन प्रसाद निवासी हेड कैनाल रौधा भगवानपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय ,

दोहरीघाट पुल मेन रोड (मुक्तिपथ) थाना बड़हलगंज, गोरखपुर, दिनांक 14.10.20 समय 05.20 बजे।

बरामदगी

08 कि0ग्रा0 नाजायज गांजा बरामद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0 1170/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 275/19 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

घटना का विवरण - दिनांक 14.10.2020 को मैं प्र0नि0 राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह उ0नि0 राजकपूर उ0नि0 किशोरी लाल चौधरी का0 निलेश कन्नौजिया का0 अनिल यादव का0 सत्येन्द्र भास्कर मय वाहन सरकारी UP53 AG 1131 मय चालक का0 दीनानाथ यादव के रवाना होकर देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधी रोकथाम जुर्म जरायम मे कस्बा बड़हलगंज क्षेत्र मे भ्रमणशील होकर कालेज तिराहा पर मौजूद था कि मुखविर खास की सूचना पर अभियुक्त दीपू हरिजन पुत्र विशुन प्रसाद निवासी हेड कैनाल रौधा भगवानपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को आज दिनांक 14.10.2020 समय 05.20 बजे दोहरीघाट से गोरखपुर की तरफ से आते हुए दोहरीघाट पुल मेन रोड (मुक्तिपथ) से हिरासत पुलिस मे लिया गया जिसके कब्जे से 08 कि0ग्रा0 गांजा नाजायज बरामद किया गया जिसके संबंध में थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर में मु0अ0सं0 1170/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम दीपू हरिजन पुत्र विशुन प्रसाद निवासी हेड कैनाल रौधा भगवानपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 श्री किशोरी लाल चौधरी थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
3. उ0नि0 श्री राजकपूर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
4. का0 निलेश कन्नौजिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।

5. का0 अनिल कुमार यादव थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर ।
6. का0 सत्येन्द्र भाष्कर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर ।